

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		मई	अप्रै.	मई		मई	अप्रै.	मई
		1	-2	-1	0	5	2	3
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.07	5.07	5.48	296218030	22018913	29399814	29656042
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.60	1.89	1.94	185733719	14632648	16657576	17500816
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.98	1.30	1.28	16056018	1363203	2017823	1875057
1.1.2 रेपो	4.72	0.43	0.38	0.45	77286611	6669493	7078422	7645792
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.19	0.20	0.21	92391091	6599952	7561331	7979967
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.37	3.07	3.44	100639565	6780829	11992139	11363617
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.10	0.11	0.10	9844746	605436	750099	791608
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	249.71	262.41	274.71	201387682	15186947	16895789	17013770
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	248.49	261.16	273.46	181153129	13559606	15060026	15219873
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.23	1.22	1.24	1.25	20234553	1627340	1835763	1793897
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	156773.59	194925.94	203656.72	79781976	6279019	7126205	7146649
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.31	0.30	0.31	190	18	16	17
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2295.50	2610.51	2786.17	554034	37499	57566	50985
2.3 आईएमपीएस	56249.68	5576.99	4492.53	4636.60	7139110	606167	621666	640867
2.4 एनएसीएच जमा \$	16938.86	1074.61	1200.84	1243.57	1670223	132404	154683	147380
2.5 एनईएफटी	96198.05	7467.75	7687.52	8215.47	44361464	3457995	3897348	3793103
2.6 यूपीआई @	1858660.25	140358.43	178934.24	186774.60	26056955	2044937	2394926	2514297
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.62	1.22	1.79	185	17	13	33
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1698.67	1869.90	1895.74	2208583	167035	198565	206368
3.1 भीम आधार पे @	230.08	19.33	17.39	19.51	6907	506	601	641
3.2 एनएसीएच नामे \$	19762.28	1539.23	1709.27	1723.65	2199327	166305	197780	205535
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	140.11	143.24	152.58	2349	225	184	192
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5105.17	5673.64	5827.40	2605110	208520	222351	226810
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3601.36	4502.70	4676.93	2109197	164955	184237	189832
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1906.58	2281.41	2359.14	795022	63831	67899	69607
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1694.78	2221.29	2317.79	1314175	101124	116338	120224
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1503.82	1170.93	1150.47	495914	43565	38113	36978
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	1114.35	875.30	861.57	332556	29772	26187	24735
4.2.2 अन्य \$	4140.06	389.47	295.63	288.90	163358	13793	11926	12243
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5496.00	6768.43	7106.39	216751	16697	21254	20722
5.1 वालेट	52898.40	4204.49	5157.38	5474.25	154066	11566	15896	16668
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1291.51	1611.04	1632.13	62686	5131	5358	4053
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	689.94	649.25	650.54	11512	1027	1093	981
5.2.2 अन्य \$	9115.54	601.57	961.79	981.59	51174	4104	4265	3072
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	524.39	494.77	481.93	7113350	611518	645079	596239
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	524.39	494.77	481.93	7113350	611518	645079	596239
6.2 अन्य	0.00	—	—	—	—	—	—	—
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	169597.82	209732.67	218968.18	91925771	7282789	8213454	8196787
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	169847.53	209995.08	219242.89	293313453	22469736	25109243	25210557
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	169323.14	209500.31	218760.96	286200103	21858218	24464164	24614318

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		मई	अप्रै.	मई		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	133232.33	165815.85	173273.19	39206221	3092908	3505147	3642370
1.1 अंतर्बैंक \$	110801.96	8851.50	9304.93	9743.47	7207439	571075	617898	638705
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	124380.84	156510.92	163529.72	31998782	2521832	2887249	3003664
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	3812.36	3653.49	3668.56	131858133	9595069	11633517	11653243
2.1 इंट्राबैंक @	13056.37	1012.11	838.00	851.51	69086996	4905987	6048107	6063029
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2800.25	2815.49	2817.05	62771136	4689082	5585409	5590213
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	60308.11	5166.41	4602.65	4604.61	3063077	260240	244747	246201
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	97.25	8.63	6.86	6.70	5084	441	373	370
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	59965.70	5133.52	4578.06	4579.88	3046987	258785	243494	244945
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	245.16	24.26	17.73	18.03	11005	1014	881	886
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	3.58	0.33	0.17	0.15	37	3	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	3.33	0.31	0.15	0.13	35	3	1	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.25	0.02	0.02	0.03	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	879.79	928.36	1017.25	296622	22804	25662	27668
5.1 एईपीएस @	11640.55	879.79	928.36	1017.25	296622	22804	25662	27668

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025	
		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11006.97	10598.99	11064.20	11115.67
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1033.00	1104.36	1111.98
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9565.98	9959.84	10003.70
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	13396.53	14840.92	13444.93	13513.51
2.1 वॉलेट @	8673.62	11302.14	8719.54	8692.12
2.2 कार्ड @	4722.91	3538.78	4725.39	4821.38
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.56	2.57	2.55	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.20	2.22	2.19	2.21
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.36	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	15.69	14.74	14.78
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	88.04	112.91	115.89
6 भारत क्यूआर @	67.18	61.21	66.84	66.64
7 यूपीआई क्यूआर *	6579.30	5690.84	6624.75	6698.20

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्यूलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल पररेल वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन, फास्ट टैग लेनदेन, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सचेंज कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन छिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐस और यूपीआई ऐस के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।